

16. HARYANA POLICE S.I. (F)

Evening Session

02-12-2018

1. XeF_2 अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के एकल युग्मों की संख्या है
(a) 5 (b) 4
(c) 6 (d) 3
2. को हरियाणवी संगीत के रागिनी और सांग के 'सूर्य कवि' का सम्मान दिया गया है।
(a) सूरदास (b) कुर्मादास
(c) लक्ष्मीचंद्र (d) उक्त में कोई नहीं
3. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ का मान 10 पदों तक ज्ञात करें।
(a) $\frac{5}{2}$ (b) $-\frac{5}{2}$
(c) $\frac{1}{60}$ (d) इनमें से कोई नहीं
4. तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया।
(a) विजयपाल (b) महीपाल
(c) अनंगपाल (d) गोपाल
5. भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है?
(a) 16 (b) 17
(c) 14 (d) 15
6. फीफा फुटबाल विश्व कप 2018 का द्वितीय विजेता कौन है?
(a) रूस (b) फ्रांस
(c) क्रोएशिया (d) उक्त में कोई नहीं
7. 'पीलिया' के अवसर पर गाया जाएगा।
(a) जन्म (b) विवाह
(c) मृत्यु (d) होली
8. यदि $P(n) = 2^{3n} - 1$, K ($K \in \mathbb{N}$) द्वारा सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए विभाज्य है, तो $K =$
(a) 5 (b) 9
(c) 7 (d) इनमें से कोई नहीं
9. 'शेख विल्ली का मकबरा' में स्थित है।
(a) अग्रोहा (b) सिरसा
(c) हिसार (d) थानेश्वर
10. निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप अभिलेखन स्टेशन स्थित नहीं है?
(a) कोलकाता (b) कोडईकनाल
(c) पुणे (d) मुंबई
11. निम्नलिखित में से कौन-सा मानव शुक्राणु का भाग नहीं है?
(a) एक्रोसोम (b) माइटोकॉन्ड्रिया
(c) शीर्ष तंतु (d) एंड्रम
12. हरियाणा ने हाल ही में अपना संस्थापना दिवस मनाया।
(a) 42वाँ (b) 50वाँ
(c) 53वाँ (d) 55वाँ
13. एक संख्या तीन अंकों से बनी है जिनका योग 17 है। बीच वाला बाकी दोनों के योग से 1 ज्यादा है। यदि अंकों का क्रम पलट दिया जाए तो संख्या 396 कम हो जाती है, तो संख्या है
(a) 494 (b) 593
(c) 681 (d) 692
14. कम्प्यूटर में सबसे छोटी और तीव्रतम ममोरी है।
(a) RAM (b) ROM
(c) कैश (d) हार्ड ड्राइव
15. विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं।
(a) विनय फोगाट (b) साक्षी मलिक
(c) बजरंग पूनिया (d) सुशील कुमार
16. लुप्त पद ज्ञात करें।
 $b_b_bb_b_bbabb_$
(a) aaabb (b) abaaa
(c) ababb (d) bbabb
17. परबलय $y^2 = 4ax$ के परिवार को दर्शानेवाली अवकलन समीकरण का क्रम है
(a) 2 (b) निर्धारित नहीं
(c) 3 (d) 1
18. 9 तत्वों वाले एक आव्यूह के अंतिम तत्व की सूचकांक संख्या है।
(a) 9 (b) 10
(c) 8 (d) 0
19. भारत की पहली बुलेंट ट्रेन से के बीच दौड़ेगी।
(a) गाँधीनगर से मुंबई
(b) अहमदाबाद से मुंबई
(c) दिल्ली से मुंबई
(d) सूरत से मुंबई
20. अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नि के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराता है। रोहित का अनिल से क्या संबंध है?
(a) मामा भाई (b) पुत्र
(c) मामा (d) भाई
21. निम्नलिखित में से कौन-सा हरियाणा को उत्तरप्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है?
(a) गंगा (b) यमुना
(c) घग्गर हकरा (d) चंडीगढ़
22. क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम यात्रा में जंगलवाला जिला है
(a) रेवाड़ी (b) फतेहाबाद
(c) गुरुग्राम (d) जींद
23. अतिभारित फंक्शन है
(a) लंबे फंक्शन जो चलाए नहीं जा सकते
(b) एक फंक्शन जिसमें दूसरा फंक्शन होता है
(c) समान नाम, प्रकार और तर्कों के साथ दो या अधिक फंक्शन
(d) समान नाम लेकिन भिन्न मानकों या प्रकार की संख्या के साथ दो या अधिक फंक्शन
24. निम्नलिखित को उनके आधार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए :
1. राष्ट्रीय और ऊर्जा संस्थान a. गुरुग्राम
2. राजा रमण्णा उन्नत तकनीक केंद्र b. इंदौर
3. राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था c. करनाल
4. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी d. नई दिल्ली संसाधन ब्यूरो

नीचे दिया गया सही विकल्प चुनिए :

- (a) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - d
(b) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d
(c) 1 - a, 2 - d, 3 - b, 4 - c
(d) उक्त में से कोई नहीं

25. विद्युतशीलता $\epsilon = 2$, 1 के एक पारघुतिक से एक घात्रि भरा है और समय अंतराल $\tau = 3$ मिनट के दौरान ग्रहित आघा आवेश वह खो देता है। यह मानते हुए कि आवेश केवल पारघुतिक पदार्थ से निकल रहा है, प्रतिरोधकता है (अवेश हानि $q = q_0 e^{-VRC}$ के अनुसार होती है और अर्ध समय $T_{1/2} = 0.693 RC$)

- (a) $1.39 \times 10^{13} \Omega m$
(b) $2.5 \times 10^{13} \Omega m$
(c) $1.39 \times 10^{-33} \Omega m$
(d) $2.5 \times 10^{-13} \Omega m$

26. वर्ष 1672 में नारनौल और आस-पास के क्षेत्र मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था, जिसका नेतृत्व साढ़ लोगों द्वारा किया गया है।

- (a) सिक्ख विद्रोह (b) सिपाही विद्रोह
(c) सतनामी विद्रोह (d) उक्त में कोई नहीं

27. विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 में बना भाप इंजन है।

- (a) कालका शिमला ट्रेन
(b) फेयरी क्वीन
(c) पैलेस ऑफ कील्स
(d) इनमें से कोई नहीं

28. जेजाक भुक्ति का पुराना नाम था।

- (a) इलाहाबाद (b) सौराष्ट्र
(c) बुंदेलखंड (d) कानपुर

29. एक क्षैतिज धरातल पर रखी एक द्रव की बूंद पर लगने वाला बल है

- (a) पृष्ठीय तनाव के कारण बल
(b) गुरुत्व के कारण बल
(c) (a) और (b) दोनों
(d) श्यान के कारण बल

30. तीन विवाहित युगलों को एक सिनेमा हॉल में 6 सीटों पर एक पंक्ति में बैठाना है। बैठने के तरीकों की संख्या ज्ञात करें यदि सभी महिलाओं को एक साथ बैठाना है।

- (a) 36 (b) 72
(c) 144 (d) इनमें से कोई नहीं

31. एक जंगली प्रजाति को मानव प्रबंधक के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया कहलाती है।

- (a) पर्यनुकूलन (b) आरंभ
(c) यरेलू बनाना (d) इनमें से कोई नहीं

32. राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड वर्ष में बनाया गया।

- (a) 1973 (b) 1953
(c) 1963 (d) 1947

33. सबसे छोटा एकल प्रयोक्ता कम्प्यूटर का सीपीयू है

- (a) माइक्रोप्रोसेसर (b) मिनीप्रोसेसर
(c) नैनो-प्रोसेसर (d) निजी प्रोसेसर

34. हाल ही में नरेंद्र मोदी ने असम में भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। इसका नामकरण के नाम पर किया गया है।

- (a) मोहम्मद रफी (b) मन्ना डे
(c) किशोर कुमार (d) भूपेन हजारिका

35. शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो वही संबंध दर्शाता है; जो त्वचा : बाल.

- (a) घर : पशु (b) नाखून : नेपोलिश
(c) घास : धरती (d) फर : टोपी

36. यदि $A = \frac{1}{\sqrt{6} - \sqrt{5}}$ तो $A^2 + \frac{1}{A^2} =$

- (a) $4\sqrt{30}$ (b) 22
(c) 11 (d) इनमें से कोई नहीं

37. निम्न में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

- (a) बकरी - बकरी का बच्चा होना
(b) घोड़ा - घोड़ी का जन्म
(c) भेड़ - भेड़ के जन्म
(d) भैंस - सूअर ब्याना

38. महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में .. के नाम पर रखा गया।

- (a) महाराजा नरेंद्र सिंह
(b) महाराजा मनिदरा सिंह
(c) महाराजा रंजीत सिंह
(d) उक्त में से कोई नहीं

39. लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

- गॉर्डन चाइल्ड - सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे।
- आर.डी. बनर्जी - सिंधु घाटी के लोग द्रविड थे
- डॉ. गुहा - सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे
- जॉन मार्शल - सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे

40. नए युग की परिवहन प्रणालियों में से एक, पोड टैक्सी को भारत में प्रस्तावित किया गया है, यह एक है।

- (a) ड्रोन का प्रयोग करते हुए कैब पूलिंग प्रणाली है
(b) यह एक पर्सनल रैपिड ट्रेनजिट सिस्टम (PRT) है
(c) चालकरहित मैग्लेव रेलगाड़ी
(d) आवश्यक सेवाओं हेतु हेल्थकोप्टर सेवा

41. समरूपता पूर्ण करें : TUESDAY : UUFSCAX :: SQUAREE : ?

- (a) TQVASED (b) TQVASED
(c) TQVAQED (d) TQVARED

42. $\cos 1^\circ \cos 2^\circ \cos 3^\circ \dots \cos 179^\circ$ का मान है

- (a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (b) 1
(c) 0 (d) -1

43. अग्रता प्रीतम को उनकी साहित्यिक कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- (a) रसीदी टिकट (b) पिंजरा
(c) सुनेहेदे (d) कागज ते कैनवास

44. निम्नलिखित में से कौन-सा एक राज्य पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण की एक विशेषता नहीं है?

- (a) राज्य शोषण का एक उपकरण है
(b) राज्य अस्थायी है
(c) वर्ग कभी उन्मूलित नहीं होते
(d) राज्य सार्वभौमिक है

45. राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित कृतियाँ प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की हैं।

- (a) उदय भानु हंस (b) खुशीराम शर्मा
(c) अयोध्या प्रसाद गोयलिया
(d) तुलसीराम शर्मा दिनेश

46. वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सर्वथा भिन्न है।

- (a) झील (b) नदी
(c) हवा (d) धारा

47. कथन का उल्टा : 'यदि $x : y = 3 : 2$ तो $2x = 3y$ ' है

- (a) यदि $x : y \neq 3 : 2$ तो $2x \neq 3y$
(b) यदि $2x = 3y$ तो $x : y = 3 : 2$
(c) यदि $2x \neq 3y$ तो $x : y \neq 3 : 2$
(d) इनमें से कोई नहीं

48. दहेज हत्या से कौन-सी धारा संबंधित है?

- (a) IPC की 498-A
(b) IPC की 489-A
(c) IPC की 304-B
(d) IPC की 304-A

49. काला व सफेद चिन्हों के विभिन्न सघन के साथ उपे हुए समान्तर रेखाओं का सेट है

- (a) सफेद कोड (b) चुम्बकीय कोड
(c) कलर कोड (d) बार कोड

50. गोबर और मिट्टी से बनी कला है।

- (a) सांझी (b) मेंहदी
(c) रंगोनी (d) उक्त सभी

51. दो जीनोम से अधिक वाला जीव कहलाता है।

- (a) एकलगुणित (b) बहुगुणित
(c) द्विगुणित (d) अर्धगुणित

52. 10 : 10 बजे एक घड़ी के मिनट की और घंटे

की सुई के बीच कोण है?

- (a) 120° (b) 125°
(c) 115° (d) 95°

53. दिए गए अंक से शुरू होनेवाली श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। मूल श्रृंखला का अनुसरण कीजिए।

(iii) के स्थान पर क्या होगा?

12 13 30 99 412

18 (i) (ii) (iii) (iv)

(a) 135 (b) 115

(c) 180 (d) 72

54. सीपीयू में, अगले निष्पादन किए जानेवाले निर्देश का संकेत देने हेतु होता है।

- (a) निर्देश पंजी (b) प्रोग्राम काउंटर
(c) मेमोरी बफर रजिस्टर
(d) एक्ज्यूमोलेटर

55. हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है?

- (a) गुरविंदर सिंह (b) राकेश सिन्हा
(c) नरिंदर सिंह वर्क (d) अश्वनी कुमार

56. एक अक्षरों की श्रृंखला में एक निश्चित नियम का पालन होता है। अगले दो अक्षर ज्ञात करें।

AJKTUBILSVCHMRWDGNQXEFO??

- (a) YZ (b) PY
(c) ZA (d) PZ

57. एक पासे को लुढ़काने पर एक अभाज्य सम संख्या पाने की प्रायिकता है

- (a) $\frac{2}{6}$ (b) $\frac{1}{2}$
(c) $\frac{1}{6}$ (d) $\frac{4}{6}$

58. हाल ही में, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन दिया है जो यमुना नदी की दो सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा।

- (a) इंदिरा गाँधी बाँध (b) भाखड़ा बाँध
(c) किशाउ और रेणुका बाँध
(d) अनंगपुर बाँध

59. 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है।

- (a) करेल और उत्तर प्रदेश
(b) बिहार और पश्चिम बंगाल
(c) बिहार और दिल्ली
(d) बिहार और उत्तर प्रदेश

60. अर्धसूत्री विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए।

- (a) यह बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि में सहायता करता है।
(b) यह कोशिका की मरम्मत में सहायता करता है।
(c) यह मातृकोशिका के गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में अनुरक्षित रखता है।

(d) यह विविधता सृजन करता है।

61. प्रसिद्ध वास्तुकार, ली कार्बुसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनायी गयी एक संरचना है

- (a) बंद हस्त स्मारक (b) खुला हस्त स्मारक
(c) दाँया हस्त स्मारक (d) बाँया हस्त स्मारक

62. स्वतंत्रता पूर्व, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में स्थित था।

- (a) अमृतसर (b) रावलपिंडी
(c) पेशावर (d) लाहौर

63. लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था?

- (a) नीलम संजीव रेड्डी (b) एम.ए. अयंगर
(c) गणेश वासुदेव मावलंकर
(d) सरदार हुकुम सिंह

64. भौगोलिक रूप से हरियाणा में विधानसभा क्षेत्र हैं।

- (a) 14 (b) 10
(c) 70 (d) 90

65. यदि A तिरछा सममित है, तो

- (a) A^2 सममित है
(b) A^2 तिरछा सममित है
(c) $A^2 = 0$ (d) इनमें से कोई नहीं

66. ? : को ऑपरेटर कहते हैं।

- (a) रिलेशन (b) कंडीशनल
(c) कास्टिंग (d) लॉजिकल

67. बांग्लादेश का राष्ट्रगान द्वारा लिखा गया।

- (a) बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
(b) रबीन्द्रनाथ टैगोर
(c) हसन मोहानी
(d) मुहम्मद इकबाल

68. निम्नलिखित में से कौन-सा ऋग्वेद में उल्लिखित 'सप्त सिंधु' या सात नदियों में नहीं आता?

- (a) रावी (b) चेनाव
(c) मार्कंडा (d) झेलम

69. मोरनी, पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र, एक उद्देश्यपरक का प्रजनन केंद्र है।

- (a) नीली मोर (b) चिंकारा
(c) तीतर (d) भारतीय गिद्ध

70. शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली से ली गई है।

- (a) फ्रांस (b) इंग्लैंड
(c) कनाडा (d) यूएसए

71. हाइब्रिड कम्प्यूटरों का प्रयोग होता है।

- (a) अंकीय करने के लिए एनालॉग संकेत को रूपांतरित करने हेतु
(b) एअर ट्रेफिक और राडार को नियंत्रित करने हेतु
(c) द्विआधारीय अंकों पर कार्य करने हेतु
(d) उक्त में से कोई नहीं

72. भारत ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2018 जीता।

- (a) इंग्लैंड (b) दक्षिण अफ्रिका
(c) न्यूजीलैंड (d) ऑस्ट्रेलिया

73. यह 'टका' से उसी प्रकार संबंधित है जैसे 'लीरा' इटली से

- (a) जॉर्डन (b) जमैका
(c) बांग्लादेश (d) मेक्सिको

74. यदि $x = 3^a, y = 9^b, z = 27^c$ और $x^{bc} y^{ca} z^{ab} = 1$ तो $abc =$

- (a) 1 (b) 27
(c) $\frac{1}{27}$ (d) 0

75. दुग्ध स्रावण का आरंभ कहलाता है।

- (a) लैक्टोजेनेसिस (b) गैलेक्टोजेनेसिस
(c) गैलेक्टोपीयसिस (d) इनमें से कोई नहीं

76. वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है?

- (a) करनाल (b) हिसार
(c) कुरुक्षेत्र (d) कैथल

77. रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और सही कथन चुनें।

i. सामान्य इच्छा आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है।

ii. सामान्य इच्छा अचूक है।

iii. यह एक व्यक्ति की सर्वोत्तम इच्छा है।

iv. सामान्य इच्छा अवैयक्तिक है।

- (a) i, ii और iv (b) केवल i और ii
(c) ii और iv (d) उक्त सभी

78. β -कीटो-ईस्टर की अमोनिया या प्राथमिक अमीन की उपस्थिति में α -क्लोरोकीटोन के साथ अभिक्रिया से पाइरोल व्युत्पन्नों का संश्लेषण है।

- (a) पाल-नोर संश्लेषण
(b) नोर पाइरोल संश्लेषण
(c) हैंड्रजपाइरोल संश्लेषण
(d) मैडेलंग संश्लेषण

79. यदि $\frac{|x-2|}{x-2} \geq 0$, तो

- (a) $x \geq 2$ (b) $x > 2$
(c) $-2 \leq x \leq 2$
(d) $x \geq 2$ या $x \leq -2$

80. पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक द्वारा दिया गया।

- (a) निकोलस (b) ऑर्नन
(c) पार्कर
(d) ऑर्नन और स्टाउट

81. भारतीय दंड संहिता से लागू हुई।

- (a) 6 अक्टूबर, 1860
(b) 1 जुलाई, 1882
(c) 1 सितम्बर, 1873

English Language

Select the sentence which is grammatically wrong

89. (a) Who do you think she is?
(b) Each of the scholars has done well
(c) Neither of them was invited to the party
(d) I was the man whom they thought was dead
90. (a) I am as tall as she is
(b) I swim better than him
(c) He gave me an advice
(d) Between you and me affairs look dark

Select the correct option for the underlined word in the following sentences:

91. They meet regularly at each other's house.
(a) distributive pronoun
(b) indefinite pronoun
(c) demonstrative pronoun
(d) reciprocal pronoun
92. None of his friends have come forward to help him.
(a) Indefinite pronoun
(b) Interrogative pronoun
(c) Distributive pronoun
(d) Demonstrative pronoun

Select compound sentence from the following:

93. (a) I told him that he would be promoted
(b) When the siren sounded, all traffic came to a stop
(c) He is a scientist and a philosopher too
(d) Smoking is bad for health

94. (a) You can go by bus or by train.
(b) I shall do as I like
(c) When we went there we found that he had gone
(d) The annual sports will be held tomorrow

हिन्दी भाषा

95. कौन-सा वाक्य शुद्ध है?

- (a) कुत्ते ने बिल्ली को मारा
(b) कुत्ता ने बिल्ली को मारी।
(c) कुत्ता ने बिल्ली को मारता है।
(d) कुत्ता बिल्ली को मारा

96. इनमें विशेषण शब्द है

- (a) लिखता है (b) अच्छा
(c) तुम (d) राम

97. "टस से मस न होना" मुहावरे का अर्थ है

- (a) अन्न के लिए तरसना
(b) जरा भी प्रभावित न होना
(c) भाग जाना (d) सामना करना

98. 'शहर' क्या है?

- (a) क्रिया (b) जातिवाचक संज्ञा
(c) अव्यय (d) सर्वनाम

99. 'प्रत्युपकार' का संधि विच्छेद है

- (a) प्रत्येक + उपकार
(b) प्रत्यु + उपकार
(c) प्रत्यु + कार
(d) प्रति + उपकार

100. "राम रोटी खाता है" इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है

- (a) राम रोटी खाता था।
(b) राम से रोटी खाई जाती है।
(c) राम रोटी खा रहा है।
(d) राम रोटी खायेगा।

उत्तरमाला

1. (d)	2. (c)	3. (b)	4. (c)	5. (a)	6. (c)	7. (a)	8. (c)	9. (d)	10. (d)
11. (d)	12. (c)	13. (d)	14. (c)	15. (c)	16. (c)	17. (d)	18. (c)	19. (b)	20. (a)
21. (b)	22. (b)	23. (d)	24. (b)	25. (a)	26. (c)	27. (b)	28. (c)	29. (c)	30. (c)
31. (c)	32. (a)	33. (a)	34. (d)	35. (c)	36. (b)	37. (d)	38. (a)	39. (d)	40. (b)
41. (c)	42. (c)	43. (d)	44. (c)	45. (b)	46. (a)	47. (b)	48. (c)	49. (d)	50. (a)
51. (b)	52. (c)	53. (a)	54. (b)	55. (a)	56. (b)	57. (c)	58. (c)	59. (b)	60. (d)
61. (b)	62. (d)	63. (c)	64. (d)	65. (a)	66. (b)	67. (b)	68. (c)	69. (c)	70. (c)
71. (b)	72. (d)	73. (c)	74. (d)	75. (a)	76. (d)	77. (d)	78. (c)	79. (b)	80. (d)
81. (a)	82. (c)	83. (c)	84. (d)	85. (b)	86. (d)	87. (a)	88. (c)	89. (d)	90. (c)
91. (d)	92. (a)	93. (c)	94. (a)	95. (a)	96. (b)	97. (b)	98. (b)	99. (d)	100. (b)